



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2788]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937

No. 2788]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015

**का.आ 3509(अ)**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 8 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के आणंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 68.200 कि.मी. से 93.300 कि.मी. (अहमदाबाद-वडोदरा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 21 फरवरी, 2015, को "दिव्य भास्कर" और "दि इण्डियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 68.200 कि.मी. से 93.300 कि.मी. तक (अहमदाबाद-वडोदरा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	ब्लोक/सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				उपविभाजन से पहले ब्लोक/सर्वे संख्या	उपविभाजन के बाद ब्लोक/सर्वे संख्या				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	आणंद	आणंद	बोरीआवी	1326	1326/2/P	निजी	गैर कृषि	23.00	विष्णुभाई मगनभाई पटेल प्रविणभाई मगनभाई पटेल कूसुमबेन मगनभाई पटेल
				1338	1338/1	निजी	कृषि	248.00	केलाशबेन सोमाभाई रेखाबेन सोमाभाई रजनीकान्त सोमाभाई शोभनाबेन सोमाभाई मनोजकुमार सोमाभाई
				1355	1355/2	निजी	कृषि	350.00	जयंतीभाई सोमाभाई सविताबेन वो जशभाई सोमाभाई की विधवा पत्नी नीलाबेन जशभाई पटेल हरषदभाई जशभाई पटेल उषाबेन जशभाई पटेल महेशभाई जशभाई पटेल
				1342	1342/1	निजी	कृषि	88.00	गोपालभाई मणीभाई अस्मिताबेन मणीभाई मीनाक्षीबेन मणीभाई पुष्पाबेन मणीभाई कूसुमबेन डाहयाभाई सुरेशभाई डाहयाभाई
				1340	1340/4	निजी	कृषि	65.00	रमेशभाई भीखाभाई
				1333	1333/2	निजी	कृषि	49.00	जयंतीभाई सोमाभाई
				1335		निजी	कृषि	472.00	शान्ताबेन वो चुनीभाई रणछोडभाई कीविधवा मनुभाई चुनीभाई विनुभाई चुनीभाई गुरुचरन चुनीभाई कुमुदबेन चुनीभाई रजनीकाबेन रावजीभाई कनुभाई रावजीभाई मुकेशभाई रावजीभाई वैष्णव रावजीभाई स्मिताबेन रावजीभाई उषाबेन मोतिभाई सुशिलाबेन मोतिभाई भानुप्रसाद मोतिभाई अनिलभाई मोतिभाई सुरेशभाई मोतिभाई वीमलाबेन वो रावजीभाई रणछोडभाई की विधवा रमणभाई रणछोडभाई सविताबेन रणछोडभाई शारदाबेन रणछोडभाई कान्ताबेन रणछोडभाई सरोजबेन वो जशभाई शीवाभाई की विधवा पत्नी सुभाषभाई जशभाई सुबोधभाई जशभाई बेबीबेन जशभाई कमलाबेन शीवाभाई

						विठ्ठलभाई शीवाभाई
						विनुभाई शीवाभाई
						मगनभाई सोमाभाई
						विठ्ठलभाई सोमाभाई
						जशभाई सोमाभाई
						विष्णुभाई सोमाभाई
						विरेंद्रकुमार भाइलालभाई सोमाभाई
						रजनीकाबेन भाइलालभाई सोमाभाई
						मधुबेन डाहयाभाई सोमाभाई का विधवा पत्नी
						अक्षयाबेन डाहयाभाई सोमाभाई
						प्रितीबेन डाहयाभाई सोमाभाई
						रावजीभाई खोडाभाई
						भारतीबेन परसोत्तमभाई खोडाभाई की पुत्री
						मिनाक्षीबेन परसोत्तमभाई खोडाभाईकी पुत्री
						मुकुंदभाई परसोत्तमभाई
						हेमंतभाई परसोत्तमभाई
						योगेशभाई परसोत्तमभाई
						मणीबेन गोरधनभाई खोडाभाई की विधवा पत्नी
						विपीनचंद्र गोरधनभाई
						रमाबेन इश्वरभाई खोडाभाई की विधवा पत्नी
						अल्काबेन इश्वरभाई खोडाभाई की पुत्री
						काश्मीराबेन इश्वरभाई खोडाभाई की पुत्री
						दिपीकाबेन इश्वरभाई खोडाभाई की पुत्री
						टीनाबेन इश्वरभाई खोडाभाई की पुत्री
						भावीनकुमार इश्वरभाई
						कीरनभाई मगनभाई
						हर्षदकुमार उमेशभाई पटेल
						मुकेशकुमार उमेशभाई पटेल
						सुरेशभाई विष्णुभाई पटेल
						विपुलभाई विष्णुभाई पटेल
						पटेल अनिलकुमार मगनभाई
						पटेल अखिनभाई मगनभाई
						रेखाबेन वो अशोकभाई
						मगनभाई पटेल कीविधवा
						केतन अशोकभाई पटेल
						पायलबेन अशोकभाई पटेल
						पटेल राजेशभाई उर्फ
						राजेन्द्रभाई हरमानभाई
						पटेल सनतभाई हरमानभाई
						पटेल दिलीपभाई हरमानभाई
						कीरनभाई मगनभाई
						हर्षदकुमार उमेशभाई पटेल
						मुकेशकुमार उमेशभाई पटेल
						सुरेशभाई विष्णुभाई पटेल
						विपुलभाई विष्णुभाई पटेल
						दरीयाबेन छगनभाई परमार और
						प्रभातभाई भुलाभाई चावडा की पत्नी
						पटेल राजेशभाई उर्फ
						राजेन्द्रभाई हरमानभाई
						पटेल सनतभाई हरमानभाई
						पटेल दिलीपभाई हरमानभाई
						सुरेशभाई धुलाभाई
						कमलाबेन वो डाहयाभाई अंबालाल की विधवा
						शैलेशकुमार डाहयाभाई
						राजेशकुमार डाहयाभाई
						गुरुचरन डाहयाभाई

							परशोत्तम फुलाभाई सरोजबेन वो डाहयाभाई फुलाभाई की विधवा पत्नी इलेशकुमार डाहयाभाई फुलाभाई पटेल हीतेषभाई डाहयाभाई फुलाभाई पटेल भरतकुमार डाहयाभाई फुलाभाई पटेल
							हेमांगिनी कनुभाई मीनाबेन कनुभाई विजयभाई कनुभाई अजयभाई कनुभाई मंजूलाबेन वो रावजीभाई शंकरभाई की विधवा यज्ञेशकुमार रावजीभाई हिरलबेन रावजीभाई अल्पेशकुमार रावजीभाई प्रदिपभाई परसोत्तमभाई बीन शंकरभाई शांताबेन शंकरभाई रजनीकान्त चंदुभाई ईन्द्रीराबेन चंदुभाई
							कलाबेन वो नटुभाई मरधाभाई पटेल की पुत्री जीगनेशकुमार नटुभाई वीमलकुमार नटुभाई
							बेचरभाई खोडाभाई
							मनुभाई शंकरभाई ब्रह्मट' ललिताबेन वो अंबालाल हरमानभाई की विधवा दिनेशभाई अंबालाल जनकभाई अंबालाल प्रविणाबेन अंबालाल शांताबेन वो महिजीभाई हरमानभाई की विधवा विपिनभाई महिजीभाई रेखाबेन महिजीभाई मीनाबेन महिजीभाई
							बेचरभाई खोडाभाई
							पटेल जीतेन्द्रकुमार भाइलालभाई उर्फ हरमानभाई
							बेचरभाई खोडाभाई
							हसमुखभाई देसाइभाई विनुभाई देसाइभाई सुधाबेन रमेशभाई पटेल चौरागकुमार रमेशभाई पटेल जौगरकुमार रमेशभाई पटेल कीर्नरीबेन रमेशभाई पटेल
							पटेल सविताबेन वो परशोत्तमभाई शनाभाई की विधवा पटेल कनुभाई परशोत्तमभाई पटेल अरविंदभाई परशोत्तमभाई पटेल विनुभाई परशोत्तमभाई कोकिलाबेन वो चीमर्नभाई पटेल की विधवा पत्नी मनहरभाई चीमर्नभाई पटेल राकेशभाई चीमर्नभाई पटेल रेखाबेन वो सुरेशभाई पटेल की विधवा पत्नी पीनलबेन सुरेशभाई पटेल
							कनुभाई परशोत्तमभाई कोकिलाबेन वो चीमर्नभाई पटेल की विधवा पत्नी मनहरभाई चीमर्नभाई पटेल राकेशभाई चीमर्नभाई पटेल
							पृष्पाबेन आश्विनभाई मंकवाना

						डॉ.अश्विनभाई मोहनभाई मकवाना
	256	256/P 1	निजी	कृषि	232.00	प्रफुलभाई छोटाभाई पटेल
	255	255/1+2/ P 1	निजी	कृषि	95.00	प्रफुलभाई छोटाभाई पटेल
	268	268/P 1	निजी	गैर कृषि	219.00	बलजीतसींग वरीयामसींग सींधु स्वरनकौर बिक्रमजीतसींग सींधु अमरजीतसींग बिक्रमजीतसींग सींधु हरीप्रीतकौर बिक्रमजीतसींग सींधु
	269	269/P 1	निजी	कृषि	383.00	शारदाबेन दानाभाई आनंदीबेन दानाभाई उर्मिलाबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती दीनाबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती अश्रुमतिबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती पुनिताबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती संजय फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती आनंद फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती संघ्याबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती सोनलबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती सविताबेन फ्रांसिसभाई परमार समिर फ्रांसिसभाई परमार अल्पेशभाई फ्रांसिसभाई परमार शीतलबेन फ्रांसिसभाई परमार
	270	270/P 1	निजी	कृषि	128.00	सविताबेन वो परशोत्तमभाई बीन शनाभाई की विधवा कनुभाई परशोत्तमभाई अरविदभाई परशोत्तमभाई विनुभाई परशोत्तमभाई कोकिलाबेन वो चीमनभाई पटेल की विधवा मनहरभाई चीमनभाई पटेल राकेशभाई चीमनभाई पटेल रेखाबेन वो सुरेशभाई पटेल की विधवा पत्नी पीनलबेन सुरेशभाई पटेल
	271	271/B	निजी	गैर कृषि	218.00	इरफानभाई अयुबभाई वोरा आरीफभाई अयुबभाई वोरा
	272		निजी	गैर कृषि	159.00	नर्मदाकार्स प्रायवेट लीमिटेड की और से उसके डायरेक्टर भावेश सुरेन्द्र शर्मा
	273	273/2	निजी	कृषि	273.00	शारदाबेन दानाभाई आनंदीबेन दानाभाई उर्मिलाबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती दीनाबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती की विधवा अश्रुमतिबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती पुनिताबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती संजय फीलीप्पभाई जुफरमणभाई दानाभाई खिस्ती आनंद फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती संघ्याबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती सोनलबेन फीलीप्पभाई उर्फ रमणभाई दानाभाई खिस्ती सविताबेन फ्रांसिसभाई परमार समिर फ्रांसिसभाई परमार

						अल्पेशभाई फ्रांसिसभाई परमार सीतलबेन फ्रांसिसभाई परमार
			273/1/P 1	निजी	कृषि	209.00
						दिनेशभाई अंबालाल पटेल जगदीशभाई अंबालाल पटेल
	आणंद		2711/4	निजी	कृषि	81.00
		2711	2711/1+2A+3	निजी	गेरकृषि	319.00
						मधुबेन वो बाबरभाई वेरीभाई की पुत्री (As per 7/12 of 2711/1+2A+3) मेघजीभाई जीवराजभाई पटेल देवसिंहभाई जीवराजभाई पटेल गंगदास जीवराजभाई पटेल खीमजीभाई जीवराजभाई पटेल
			2709/2	निजी	कृषि	189.00
						जमुबेन उर्फ जमिलाबेन वो अबुभाई व्होरा की पत्नी और गुलामनबी जमालभाई की पुत्री
		2709	2709/1	निजी	कृषि	250.00
						मनुभाई भाइलालभाई बळवंतभाई भाइलालभाई अरविदभाई भाइलालभाई प्रविणभाई भाइलालभाई बिपेन्द्रभाई भाइलालभाई स्मिताबेन विजयभाई भाइलालभाई की विधवा रोशन विजयभाई पटेल
						खोडाभाई मोहनभाई कोकीलाबेन मोहनभाई शारदाबेन मोहनभाई शान्ताबेन वो सोमाभाई मोहनभाई की विधवा राजेशभाई सोमाभाई जीतेनभाई सोमाभाई अल्पेशभाई सोमाभाई पुनमभाई हरमानभाई मंगलभाई हरमानभाई गोकलभाई हरमानभाई रङ्गीभाई हरमानभाई मगनभाई हरमानभाई जगदीशभाई हरमानभाई काशीबेन वो शंकरभाई मोतिभाई की विधवा छोटाभाई शंकरभाई रमेशभाई शंकरभाई नटुभाई शंकरभाई कनुभाई शंकरभाई चंदुभाई शंकरभाई
		2708	2708/3	निजी	कृषि	77.00
						कल्पनाबेन वो महेशभाई मगनभाई की विधवा जीमीशा महेशभाई की पुत्री वैशालीबेन महेशभाई की पुत्री जगदीशभाई मगनभाई पटेल महेन्द्रभाई मगनभाई पटेल दिनेशभाई मगनभाई पटेल शुसीलाबेन वो प्रफुलभाई अंबालाल की विधवा सगीर बिरेनकुमार प्रफुल्लभाई सगीर मितलकुमार प्रफुल्लभाई सगीर दिक्षीतकुमार प्रफुल्लभाई कीवाली चंद्रकान्त अंबालाल घनश्यामभाई अंबालाल जयंतीभाई अंबालाल चंद्रिकाबेन अंबालाल मोतीभाई की पुत्री रुनेहाबेन बालकृष्ण अंबालाल की विधवा एवं सगीर सौलीनकुमार बालकृष्ण की वाली तरीके
			2708/1	निजी	कृषि	151.00



						अस्मिताबेन अरुणकुमार की विधवा
	408	408P1	निजी	कृषि	387.00	मुकुंदभाई डाह्याभाई पटेल
	410	410P1	निजी	गैरकृषि	215.00	नेहाबेन दिपककुमार शाह
		410P2	निजी	गैरकृषि	200.00	आरतीबेन जगदिशभाई शाह इसुबमिया अमीनमीया कुरेशी असलमहुसेन सिकंदरमियां कुरेशी महमदहुसेन सिकंदरमियां कुरेशी सिराजमियां अभिनमिया कुरेशी
	411	411/1+2+ 412/1	निजी	गैरकृषि	420.00	साधुराम हरीप्रसाद पटेल संजयभाई साधुराम पटेल अजयभाई साधुराम पटेल विजयभाई साधुराम पटेल
	405	405P1	निजी	कृषि	84.00	वाणद बाबुभाई हरमानभाई वाणद रमेशभाई हरमानभाई वाणद मंजुलाबेन हरमानभाई वाणद मफलभाई मणीभाई वाणद कांतिभाई मणीभाई वाणद ललीताबेन वो मणीभाई की पुत्री
	412	412/1P1	निजी	कृषि	478.00	दक्षाबेन हसमुखभाई की विधवा विशालकुमार हसमुखभाई पटेल
	371	371/3	निजी	गैरकृषि	246.00	रवि कोल्डस्टोरेज के भागिदार सतिषभाई भीखाभाई पंकजभाई भीखाभाई
	170	170/2/ 1/P/2	निजी	कृषि	206.00	परमार सोमाभाई बनाभाई
रुखीबेन वो मंगलभाई बनाभाई कीविधवा						
कंकुबेन मंगलभाई						
विनुभाई मंगलभाई						
	162	162 P 2	निजी	गैरकृषि	223.00	रमीलाबेन मंगलभाई
(As per 7/12 of 162/P2) लक्ष्मीचंद मगनभाई पटेल						
नरसीभाई मानाभाई पटेल कणबी (पटेल) रमेशभाई दलीचंद						
राजेशभाई अंबारामभाई पटेल						
	163	163/1	निजी	कृषि	154.00	जीबाबेन शंकरभाई
दरियाबेन शंकरभाई						
चंदाबेन शंकरभाई						
नंदाबेन शंकरभाई						
इश्वरभाई चतुरभाई						
बुधाभाई चतुरभाई						
उदेसंग चतुरभाई						
रामाभाई चतुरभाई						
पुनमभाई चतुरभाई						
मोहनभाई छोटाभाई परमार						
रणछोडभाई छोटाभाई परमार						
रसिकभाई छोटाभाई परमार						
कोकिलाबेन छोटाभाई परमार						
सुधाबेन रइजीभाई परमार						
संगीताबेन रइजीभाई परमार						
विजयकुमार रइजीभाई परमार						
213	213/1	निजी	कृषि	406.00	दिपकभाई ठाकोरभाई	
169	169/P1/P1	निजी	गैर कृषि	74.00	(As per 7/12 of 169/Paiki 1/Paiki 1) शाह रीटाबेन सत्येन्द्रकुमार	
167	167/P 1	निजी	गैर कृषि	180.00	(As per 7/12 of 167/Paiki -1) मोहनभाई हुंधराजमल अंभाणी पीरसिंह मंगलसिंह राजपुत वो सगीर हीन्दसिंह के वाली अवतारसिंह सरवंतसिंह शेनी	



						अब्दुलहनीफखान अब्दुलवहीदखान पटान
					160	आणंद रीजीयोनल को ओपरेटीव ओइल सीडस ग्रासेस युनियन लीमीटेड चीखोदरा
		वधासी				
					435	435/P
			निजी	कृषि	84.00	लखुभाई वालजीभाई पटेल
			निजी	कृषि	72.00	नटुभाई मुलजीभाई उर्फ मफतलाल पंचाल
			निजी	गैर कृषि	90.00	शाहीनबानु वो अनसभाई की पुत्री और उवेपभाई सब्बिरभाई की पत्नी
			निजी	गैर कृषि	95.00	विद्याबेन वो हर्षदभाई छोटाभाई की विधवा हरीशकुमार हर्षदभाई पटेल मिनेषकुमार हर्षदभाई पटेल
			निजी	गैर कृषि	40.00	भरतभाई रावजीभाई पटेल चीमनभाई गोरधनभाई
			निजी	कृषि	169.00	विपीनचंद्र गोरधनभाई पटेल
			निजी	कृषि	125.00	विपीनचंद्र गोरधनभाई पटेल
			निजी	गैर कृषि	17.00	जगदीशभाई रामजीभाई पटेल नविनभाई रामजीभाई पटेल प्रविणभाई नरसिंहभाई पटेल निशीथभाई कांतिभाई
			निजी	कृषि	234.00	447/3/P कमलाबेन वो अंबुभाई नरसिंहभाई पटेल की विधवा महेशभाई अंबुभाई पटेल मयंककुमार अंबुभाई पटेल मयुरीबेन अंबुभाई पटेल
			निजी	गैर कृषि	60.00	337/1 P कुसुमबेन उर्फ चंचलबेन वो रावजी की विधवा जीतेन्द्रकुमार रावजीभाई उपेन्द्रकुमार रावजीभाई कनुभाई बीजलभाई प्रजापति विकीबेन दर्शन पटेल किरीटकुमार भाईलालभाई सुधीरभाई भाईलालभाई जपप्रकाश भाईलालभाई कुशुमबेन किरीटकुमार भाईलालभाई पटेल की ओरत किरीटकुमार भाईलालभाई पटेल
			निजी	कृषि	198.00	449/1+2+450/1 जीतेन्द्र मणीभाई
			निजी	गैर कृषि	55.00	रावजीभाई मणीभाई
			निजी	कृषि	55.00	गुजरात ग्राम गृह निर्माण बोर्ड
			निजी	कृषि	1296.00	327/ 1+3+4 पटेल रमेशभाई छोटाभाई बीन वाधजीभाई
			निजी	कृषि	515.00	438/1 आणंद रीजीयोनल को ओपरेटीव ओइल सीडस ग्रासेस युनियन लीमीटेड चीखोदरा
			निजी	कृषि	368.00	438/2p वीपीनचंद्र गोरधनभाई पटेल मधुबेन वो ईश्वरभाई की विधवा
			निजी	गैर कृषि	50.00	444 P पटेल सुनिलकुमार जयंतिलाल पटेल संजयकुमार वीराभाई पटेल प्रकाशभाई हरीभाई
			निजी	गैर कृषि	389.00	कैलाशबेन रसिकभाई चौहान विपुलभाई रसिकभाई चौहान

							अरुणकुमार रसिकभाई चौहान रसिकभाई गीरधरभाईचौहान
					60.00		भावनाबेन कीरनभाई लींवाचीया कीरनभाई रमणभाई लींवाचीया
					60.00		जयंतीभाई जेठाभाई पटेल कौशीकभाई जशभाई पटेल जीतेन्द्रभाई जशभाई पटेल
					65.00		दीपतीबेन जयेशकुमार पटेल गीरीशभाई अंबालाल पटेल
	317	317/1/A	निजी	कृषि	120.00		गीरीशकुमार रतिलाल पटेल
	318	318/1	निजी	गैर कृषि	261.00		मनहरभाई इश्वरभाई पटेल गुणवंतभाई जशभाई पटेल
		318/2	निजी	कृषि	523.00		मनहरभाई इश्वरभाई पटेल गुणवंतभाई जशभाई पटेल
	404	404/1+ 404/2	निजी	गैर कृषि	295.00		<b>सलीमुद्दीन अजीमुद्दीन मलेक</b>
					360.00		मुखारअली नझीरअली पठाण फैयाझअली नझीरअली
	405	405/1	निजी	कृषि	186.00		पटेल अमरीशकुमार जयंतीभाई पटेल नैनेशकुमार जयंतीभाई
		405/2			323.00		किरणभाई विनुभाई देसाइ पंकजभाई विनुभाई देसाइ
	754		निजी	गैर कृषि	97.00		कान्ताबेन वो रमेशभाई शनाभाई <b>पटेल</b> की विधवा
	9		निजी	कृषि	115.00		गंगाबेन भुलाभाई भीखाभाई पटेल की विधवा मनुभाई भुलाभाई पटेल राजेन्द्रभाई भुलाभाई पटेल मणीबेन उर्फ विमळाबेन डाहयाभाई पटेल कुसुमबेन विहलभाई पटेल
	18	18/4	निजी	कृषि	23.00		चंचळबेन रामाभाई नानाभाई की विधवा महालक्ष्मीबेन रणछोडभाई नानाभाई की विधवा रतनसिंह नानाभाई
		18/5	निजी	कृषि	11.00		कान्तीभाई बबुभाई रतनसिंह नानाभाई चौहाण जयंतीभाई बबुभाई दिनेशभाई बबुभाई त्रिकमभाई बबुभाई हर्षदभाई बबुभाई
							<b>कपुरबेन</b> बबुभाई जेगाभाई की विधवा कोकीलाबेन बबुभाई लीलाबेन बबुभाई रणछोडभाई नानाभाई चौहाण

						चंचलबेन रामाभाई नानाभाई की विधवा
				16	16/1	निजी कृषि 71.00 गोविंदभाई धुळाभाई पुनमभाई धुळाभाई
					16/3	निजी कृषि 67.00 मेहुलकुमार रमेशभाई पटेल
				13	13+14	निजी गैर कृषि 105.00 पुंजीबेन लक्ष्मणभाई करसनभाई चावडा की विधवा सुरेशभाई लक्ष्मणभाई चावडा अनिताबेन लक्ष्मणभाई चावडा हरेशभाई लक्ष्मणभाई चावडा प्रकाशभाई लक्ष्मणभाई चावडा
				15		निजी कृषि 120.00 अंदरबेन वो आत्माराम चावडा की विधवा सुरजबेन आत्माराम चावडा शंकरभाई आत्माराम चावडा कनुभाई आत्माराम चावडा मणीबेन धुळाभाई शान्ताबेन धुळाभाई रंजीभाई छगनभाई दरीयाबेन छगनभाई रमणभाई पुनमभाई बाबुभाई पुनमभाई मोहनभाई पुनमभाई नटवरभाई पुनमभाई चंचलबेन पुनमभाई जशीबेन पुनमभाई वीमलाबेन पुनमभाई लीलाबेन पुनमभाई
				24		निजी कृषि 63.00 नैनेशभाई जयंतीभाई पटेल अमरीशकुमार जयंतीभाई पटेल
				141	140+141 P1+142/1	निजी गैर कृषि 110.00 जयंत यशपाल नंदा
				142	142/2	निजी कृषि 64.00 जयेशभाई सुरेशभाई पटेल मनिषभाई सुरेशभाई पटेल हरेशभाई कौशीकभाई पटेल परेशभाई जयंतीभाई पटेल जीग्नेशभाई दिनेशभाई पटेल
				143		निजी कृषि 38.00 विशालकुमार रजनीकान्त मनीषकुमार रजनीकान्त जीतेन्द्र हरमानभाई प्रज्ञेशकुमार विहलभाई पटेल सुनीलकुमार चीमनभाई पटेल पीनलकुमार कान्तीभाई पटेल <b>विठलभाई गोरधनभाई पटेल</b> जयेशभाई सुरेशभाई पटेल मनीषभाई सुरेशभाई पटेल हरेशभाई कौशीकभाई पटेल परेशभाई जयंतीभाई पटेल जीग्नेशभाई दिनेशभाई पटेल
				136	136/1	निजी कृषि 153.00 विशालकुमार रजनीकान्त मनीषकुमार रजनीकान्त जीतेन्द्रकुमार हरमानभाई
				400		निजी कृषि 650.00 कीरनभाई विनुभाई देसाई पकजभाई विनुभाई देसाई
				402	402/1+ 403/1	निजी गैर कृषि 129.00 शाह सेजलबेन कौशीककुमार शाह कौशीककुमार शरदचंद्र
				401	401/1	निजी गैर कृषि 264.00 गुलामहुसेन दाउदभाई सुणसरा कासमभाई इब्राहीमभाई सुणसरा आबीदअली दाउदभाई सुणसरा जैयनबेन इब्राहीमभाई सुणसरा कासमअली इब्राहीमभाई सुणसरा नजरमहमद इब्राहीमभाई सुणसरा
					401/2	कृषि 250.00 कमलाबेन वो छोटाभाई धोरीभाई की विधवा

				401/2 P		गैर कृषि	36.00	अशोकभाई सोमाभाई परमार भगवानदास लखुभाई पटेल हरीकुमार जीवनभाई पटेल
385	385/1	निजी	गैर कृषि				349.00	धनजीभाई नानजीभाई
	385/2	निजी	गैर कृषि				147.00	उवेशभाई सब्बीरभाई वहोरा
386	386/B	निजी	गैर कृषि				122.00	उवेशभाई सब्बीरभाई वहोरा
389	389+390/ 1+2	निजी	गैर कृषि				230.00	हमीदभाई युसुफभाई वहोरा रेहानाबेन हमीदभाई वहोरा
390	389+390/ 1+2	निजी	गैर कृषि				200.00	झहीर अहमदखान गुदुखान पठान जरीनाबेगम वो अब्दुलकदीर की विधवा पत्नी ताहीरखानम अब्दुलकदीर ताहीरखान अब्दुलकदीर जायदाखान अब्दुलकदीर नाजियाखानम अब्दुलकदीर
391		निजी	गैर कृषि				760.00	शारदा विजय टीम्बर माटें शामजीभाई पचाणभाई पटेल चीखोदरा के भागीदार
394		निजी	गैर कृषि				658.00	(As per 7/12 of 394 P) गाला प्लास्टिक भागीदार गाला ब्रश इन्डस्ट्रीना भागीदार रमेशचंद्रलालजी गाला परशोत्तमभाई नारणभाई पटेल मनसुखभाई नारणभाई पटेल पार्वतीबेन नारणभाई पटेल लीलाधरभाई नारणभाई पटेल लीलावतीबेन ते मोरारजीभाई नरसिंहभाई ठक्कर अजयभाई मोरारजीभाई ठक्कर नमता संकेत गाला अदीती मयुर गाला (As per 7/12 of 394 Paiki 1) अशोक चंपकलाल शाह
377	377/1	निजी	गैर कृषि				396.00	नागजीभाई दानाभाई रावजीभाई दानाभाई भानुबेन वो दानाभाई करशनभाई पटेल की विधवा मुलजीभाई दानाभाई पटेल
	377/2	निजी	गैर कृषि				90.00	रसीदाबेन मंहमंदरफीक शैख
378		निजी	कृषि				381.00	अनवरबेग अबदूलबेग मीरझा भाइलाल झवरभाई
598	598/P	निजी	कृषि				2023.00	शारदाबेन वो रणछोडभाई नारणभाई की विधवा रमणभाई रणछोडभाई कनुभाई रणछोडभाई मंजुलाबेन रणछोडभाई
600		निजी	कृषि				677.00	भाइलालभाई सोमाभाई रमेशभाई सोमाभाई
582		निजी	कृषि				580.00	(As per 7/12 of 582/1) शारदाबेन वो रणछोडभाई नारणभाई की विधवा कनुभाई रणछोडभाई मंजुलाबेन रणछोडभाई



							महेशभाई परपोत्तमभाई पटेल रविन्द्रभाई परपोत्तमभाई पटेल कलाबेन परपोत्तमभाई पटेल महेशभाई परपोत्तमभाई पटेल दीनाबेन परपोत्तमभाई पटेल
	मोगर						डहीबेन वो फुलाभाई सोलंकी की विधवा रमणभाई फुलाभाई सोलंकी चीमनभाई फुलाभाई सोलंकी विजयभाई फुलाभाई सोलंकी
		558	558 P	निजी	कृषि	325.00	रमणभाई पुजाभाई पटेल
					गैर कृषि	84.00	हिमांशु उर्फ हितेशभाई मोतीभाई भूपेन्द्रभाई मोतीभाई
		574	574/1/P	निजी	कृषि	49.00	हरिसिंह रामसिंह वाघेला बळवंतसिंह रामसिंह वाघेला महेन्द्रसिंह रामसिंह वाघेला रणवीर रामसिंह वाघेला सजनबेन रामसिंह
		645		निजी	कृषि	310.00	हेमराजसिंह करनसिंह सोलंकी
		649	649/1	निजी	कृषि	440.00	<b>महेशभाई मोतीभाई</b> राजेश्रीबेन मणीभाई सीमाबेन मणीभाई दीलीकाबेन मणीभाई अजय मणीभाई सेजलबेन मणीभाई
		747	747/1	निजी	कृषि	512.00	हुसेनभाई आलमभाई हरिसिंह फतेसिंह उदेसिंह फतेसिंह धनाबेन सुजातभाई सालमभाई चौहाण की विधवा सदुबेन फतेसिंह की विधवा नीझामभाई सुजातभाई चौहाण मुमताझबेन महंमदभाई सुजातभाई चौहाण की विधवा मनीषाबेन महंमदभाई चौहाण शानुबेन महंमदभाई चौहाण हमीदभाई महंमदभाई चौहाण रेश्माबेन महंमदभाई चौहाण समीरभाई महंमदभाई चौहाण बचुभाई जीवाभाई चौहाण बालुबेन जीवाभाई चौहाण छत्रसिंह जीवाभाई चौहाण मानसिंह जीवाभाई चौहाण
			747/2	निजी	कृषि	161.00	कातिभाई नारणभाई प्रजापति
		748	748/P	निजी	गैर कृषि	70.00	छत्रसिंह मानसिंह महीडा धनीबेन मानसिंह महीडा हरीसिंह मानसिंह महीडा चंदुबेन मानसिंह महीडा उदेसिंह मानसिंह महीडा
					कृषि	510.00	पटेल रमणभाई परपोत्तमभाई कीरीटभाई रमणभाई पटेल हंसाबेन रमणभाई पटेल रेखाबेन रमणभाई पटेल नरेन्द्रभाई रमणभाई पटेल चंद्रकान्त रमणभाई पटेल रमेशभाई छोटभाई पटेल आनंदबेन रणजीतसिंह वाघेला रीटाबेन रणजीतसिंह वाघेला दीलीपसिंह रणजीतसिंह वाघेला दीपकसिंह रणजीतसिंह वाघेला
		752	752/P	निजी	कृषि और गैर कृषि	750.00	प्रजापती तरुलताबेन कांतीभाई

							प्रजापती कांतीभाई नारनभाई रणजीतसिंह माधवसिंह महीडा लक्ष्मणसिंह माधवसिंह महीडा जीतेन्द्रसिंह माधवसिंह महीडा	
			751		निजी	गैर कृषि	552.00	धनजीभाई दानाभाई
			749		निजी	गैर कृषि	397.00	नरसिंहभाई दानाभाई
			38		निजी	कृषि	380.00	गुजरात अेनर्जी ट्रान्समीशन कॉर्पोरेशन लीमीटेड
			750		निजी	कृषि	165.00	खेडा जीला शाला के चेरमेन
			754		निजी	कृषि	393.00	खेडा जीला शाला के चेरमेन
			37	37/2	निजी	गैर कृषि	300.00	छत्रसिंह सोमसिंह छासटीया
		402.00					विक्रमसिंह छत्रसिंह छासटीया	
		100.00					जीतेन्द्रसिंह माधवसिंह	
		37/1		निजी	गैर कृषि	480.00	कनकसिंह माधवसिंह वाधेला	
			369.00			छत्रसिंह सोमसिंह वंदनाबेन नरहरीभाई छोटाभाई पटेल		
			3	3/P	निजी	कृषि	83.00	सॉलकी रणविरसिंह सुरसिंह
		जीतेन्द्रसिंह सुरसिंह						
		महेशकुमार सुरसिंह						
		सकुंतलाबेन वो वीरभद्रसिंह						
		सुरसिंह सॉलकी की विधवा						
		दीव्यराजसिंह वीरभद्रसिंह सॉलकी						
		देवयानीबेन वीरभद्रसिंह सॉलकी						
		महेश्वरीबेन वीरभद्रसिंह सॉलकी						
			11	11/1	निजी	कृषि	10.00	सॉलकी जीतेन्द्रसिंह सुरसिंह
		रणविरसिंह सुरसिंह						
		महेशकुमार सुरसिंह						
		सकुंतलाबेन वो वीरभद्रसिंह सुरसिंह						
		की विधवा						
		दीव्यराजसिंह वीरभद्रसिंह सॉलकी						
		देवयानीबेन वीरभद्रसिंह सॉलकी						
		महेश्वरीबेन वीरभद्रसिंह सॉलकी						
			11/2				370.00	महेशकुमार सुरसिंह सॉलकी
		सकुंतलाबेन वो वीरभद्रसिंह सुरसिंह						
		की विधवा						
			10		निजी	कृषि	66.00	दीव्यराजसिंह वीरभद्रसिंह सॉलकी
		देवयानीबेन वीरभद्रसिंह सॉलकी						
		महेश्वरीबेन वीरभद्रसिंह सॉलकी						
		सॉलकी रणविरसिंह सुरसिंह						
		जीतेन्द्रसिंह सुरसिंह						
		महेशकुमार सुरसिंह						
		सकुंतलाबेन वो वीरभद्रसिंह						
		सुरसिंह सॉलकी की विधवा						
		दीव्यराजसिंह वीरभद्रसिंह सॉलकी						
		देवयानीबेन वीरभद्रसिंह सॉलकी						
		महेश्वरीबेन वीरभद्रसिंह सॉलकी						
			24	24/1/B	निजी	गैर कृषि	45.00	कांची कामकोटि मेडीकल ट्रस्ट
		24/1/A						कृषि
			67	67/11 P 1 P	निजी	कृषि	816.00	शकुंतलाबेन वो नटवरसिंह शीवाभाई परमार की पुत्री और बहादुरसिंह शनाभाई महिडा की पत्नी
	वडोद		697		निजी	कृषि	70.00	नयनाबेन प्रदिपभाई पटेल
		प्रदिपभाई रामभाई पटेल						
		तेजश मणीभाई पटेज						
		प्रवीणभाई डाहयाभाई पटेज						
								धनुबेन उर्फ धनलक्ष्मीबेन वो कांतिभाई शीवाभाई की पुत्री और वीनुभाई

							रावजीभाई पटेज की पत्नी
							शंकरभाई मंगलभाई महीडा
							गोरधनभाई मंगलभाई महीडा
							नटुभाई मंगलभाई
							शीवाभाई फुलाभाई
							रामभाई जीवाभाई
							चंदुभाई जीवाभाई
							सविताबेन फुलाभाई
							डाहयाभाई लल्लुभाई
							गजराबेन वो डाहयाभाई भाथीभाई की विधवा
							कमलाबेन वो डाहयाभाई भाथीभाई की विधवा
							मधुबेन डाहयाभाई
							मनुभाई डाहयाभाई
							रमेशभाई डाहयाभाई
							शनाभाई भाथीभाई
							महेन्द्रसिंह खोडाभाई
							अरविदभाई खोडाभाई
							रेवाबेन वो उदेसिंग की विधवा पत्नी
							रमिलाबेन उदेसिंग
							रंजनबेन उदेसिंग
							नैनाबेन वो महेन्द्रसिंह की विधवा पत्नी
							पायलबेन महेन्द्रसिंह
							दिगविजयसिंह महेन्द्रसिंह
							वैशालीबेन वो जीतेन्द्रसिंह की विधवा पत्नी
							जयदिपसिंह जीतेन्द्रसिंह
							डीम्पलबेन जीतेन्द्रसिंह
							शान्ताबेन काशीभाई जारीया
							कनुभाई काशीभाई जारीया
							सविताबेन काशीभाई जारीया
							अजफ्रनभाई काशीभाई जारीया
							सुरजबेन काशीभाई जारीया
							कान्ताबेन भीखाभाई जारीया
							दीलीपभाई भीखाभाई जारीया
							हसाबेन भीखाभाई जारीया
							विष्णुभाई भीखाभाई जारीया
							सोनाबेन वो मानसिंगभाई जारीया की विधवा
							कनुभाई अंबालाल जारीया
							भगवानसिंह अंबालाल जारीया
							बजुबेन वो रावजीभाई जारीया की विधवा
							भानुबेन रावजीभाई जारीया
							लक्ष्मीबेन रावजीभाई जारीया
							शारदाबेन वो भाइलालभाई की विधवा पत्नी
							<b>मीनाबेन</b> भाइलालभाई जारीया
							नीताबेन भाइलालभाई जारीया
							भुपेन्द्रभाई भाइलालभाई जारीया
							शान्ताबेन वो रमणभाई मंगलभाई जारीया की विधवा
							जशभाई रमणभाई जारीया
							जुगीबेन चंदुभाई जारीया
							मुकेशभाई चंदुभाई जारीया
							<b>बजु</b> बेन वो रावजीभाई प्रभातभाई की विधवा पत्नी
							दक्षाबेन रावजीभाई जारीया
							लक्ष्मीबेन रावजीभाई जारीया
							शारदाबेन लक्ष्मणभाई जारीया
							ज्योत्सनाबेन लक्ष्मणभाई जारीया
							रीटाबेन लक्ष्मणभाई जारीया



						दिवालीबेन वो बाबुभाई जारीया की विधवा पत्नी दिलीपभाई बाबुभाई जारीया गंगाबेन वो अमरसिंह मोतिभाई जारीया की विधवा पत्नी महेशभाई अमरसिंह मोतिभाई जारीया <b>अजीतकुमार</b> अमरसिंह जारीया	
	675		निजी	कृषि	68.00	गजराबेन मोतीभाई भाथीभाई की विधवा कमळाबेन मेलाभाई मोतीभाई की विधवा महेन्द्रभाई मोतीभाई अरविदभाई मोतीभाई गोरधनभाई मंगळभाई रमणभाई मंगळभाई नटुभाई मंगळभाई गंगाबेन अमरसिंह जारीया रंजनबेन अमरसिंह जारीया महेशभाई अमरसिंह जारीया अजितकुमार अमरसिंह जारीया	
अडास	1062	1062/8P1	निजी	कृषि	167.00	<b>बचुभाई</b> उदेसंग	
	870	870/7/P1	निजी	कृषि	260.00	देवदंतसिंह विक्रमसिंह राज कैलाशबेन विक्रमसिंह राज बलविरसिंह विक्रमसिंह राज	
		870/8	निजी	कृषि	35.00	जनकभाई भाईलालभाई <b>पटेल</b>	
	871	871/14/16/4	निजी	कृषि	546.00	रामसिंह मानसिंह कीशोरसिंह मानसिंह कनकसिंह मानसिंह हीराबेन वो मानसिंह काभइभाई की पुत्री <b>शांताबेन</b> वो मानसिंह काभइभाई की पुत्री राजेन्द्रसिंह नरेन्द्रसिंह महीडा भावनाबेन नरेन्द्रसिंह महीडा रंजनबेन नरेन्द्रसिंह महीडा	
	883	883/P 1	निजी	कृषि	68.00	शारदाबेन मोतीभाई चीमेभाई की पुत्री गणपतसिंह मोतीसिंह	
	859	859/P 1	निजी	कृषि	91.00	भाविनभाई महेशभाई पटेल	
	858	858/P 1	निजी	गैर कृषि	64.00	हीतेन्द्र आरं शाह वो अमिधारा रीअलोट्टर प्रायवेट लीमिटेड के डायरेक्टर और अधिकत व्यक्त की हेसियत से	
वासद	11	11/2	निजी	गैर कृषि	410.00	अरुणभाई मणीभाई पटेल गीरीशभाई मणीभाई पटेल गीताबेन मणीभाई पटेल की पुत्री	
	159	159/P	निजी	कृषि	35.00	जयाबेन जयंतीभाई हरमानभाई पटेल की विधवा वासंतीकाबेन जयंतीभाई पटेल ओजेशभाई जयंतीभाई पटेल निमेषभाई जयंतीभाई पटेल	
	968		निजी	कृषि	899.00	रभिकांत अंबालाल <b>परेशकुमार</b> अंबालाल	
	967		निजी	कृषि	2327.00	सीमंधर स्वामी आराधना ट्रस्ट, अहमदाबाद	
	962			निजी	कृषि	6630.00	गंगाबेन हरीभाई धुळाभाई की विधवा केसरीसंग महीजीभाई परमार उदेसंग महीजीभाई सविताबेन शनाभाई की पुत्री एवं स कमळाबेन विमलाबेन वो सगीर कान्ताबेन और कमलाबेन अमरसंग के वाली नंदुबेन वो फतेसंग हीमंतसंग परमार

						की विधवा पत्नी मंजुलाबेन फतेसंग परमार अशोकभाई फतेसंग परमार राजेशभाई फतेसंग परमार विष्णुभाई फतेसंग परमार शारदाबेन वो गणपतसिंह उर्फ गणपतभाई परमार की विधवा सुनिताबेन गणपतसिंह उर्फ गणपतभाई परमार <b>कल्पेशभाई</b> गणपतसिंह उर्फ गणपतभाई परमार हसमुखभाई गणपतसिंह उर्फ गणपतभाई परमार			
				907		निजी	कृषि	2379.00	मृशाद शांतुभाई पटेल
				908		निजी	कृषि	1826.00	(As Per 7/12 of 908/1) कलाबेन उमेदभाई पटेल भुपेन्द्रभाई उमेदभाई पटेल अश्विनभाई उमेदभाई पटेल रंजनबेन उमेदभाई पटेल प्रग्नाबेन उमेदभाई पटेल शारदाबेन वो उमेदभाई सोमाभाई पटेल की विधवा पत्नी (As Per 7/12 of 908/2) <b>भाईलालभाई त्रिकमभाई</b> <b>रणछोडभाई त्रिभोवनदास</b> <b>डाहयाभाई त्रिभोवनदास</b> <b>शारदाबेन वो चुनीभाई</b> <b>छोटाभाई पटेल की विधवा</b> <b>कनुभाई चुनीभाई पटेल</b> <b>पुष्पाबेन चुनीभाई पटेल</b>
				965		निजी	कृषि	440.00	भाईलालभाई त्रिकमभाई पटेल रणछोडभाई त्रिकमभाई पटेल डाहयाभाई त्रिकमभाई पटेल
				909		निजी	कृषि	1630.00	दिलीपकुमार मंगलभाई वीरेन्द्रकुमार मंगलभाई कमलाबेन वो रणछोडभाई मीठाभाई पटेल की सधवा <b>मायाबेन रणछोडभाई मीठाभाई</b> <b>की पुत्री</b> जयेशभाई रणछोडभाई मीठाभाई पटेल
				910		निजी	कृषि	1800.00	रमेशभाई मुलजीभाई पटेल हर्षदभाई मुलजीभाई पटेल
				913	912+913	निजी	कृषि	660.00	श्री वासद गाम लेउवा पाटीदार कुळदेवी वहराइ माताजी सेवा ट्रस्ट, वासद के ट्रस्टी एवं अडमिनीस्ट्रेटर चंदुभाई काशीभाई पटेल
				951	951/P 1	निजी	कृषि एवं गैर कृषि	260.00	मनुभाई महिजीभाई रमणभाई महिजीभाई ठाकोरभाई महिजीभाई घनश्यामभाई महिजीभाई अर्पिताबेन महिजीभाई नगीनभाई भीखाभाई शशीकान्त भीखाभाई हितेशभाई भीखाभाई ललिताबेन <b>मगनभाई</b> पटेल <b>सावित्रीबेन मगनभाई</b> पटेल गायत्रीबेन <b>मगनभाई</b> पटेल

								चंद्रमणिबेन मगनभाई पटेल
								निलमबेन मगनभाई पटेल
								सुचिताबेन मगनभाई पटेल
				957	957/P 1	निजी	कृषि	280.00
								ललिताबेन वो अंबालाल की विधवा
								कनुभाई अंबालाल पटेल
								महेशभाई अंबालाल पटेल
				914		निजी	कृषि	720.00
								श्री करुणासागर समाज सेवा ट्रस्ट, के ट्रस्टी श्री अविचलदासजी कायमपंथी , वासद के अनुसार
				928	928/1	निजी	कृषि	60.00
						निजी	कृषि	10.00
								श्री करुणासागर समाज सेवा ट्रस्ट, के ट्रस्टी श्री अविचलदासजी कायमपंथी , वासद के अनुसार ट्रस्टी चीमनभाई बाबरभाई पटेल
								श्री वासद गाम लेउवा पाटीदार कुळदेवी वहेराइ माताजी सेवा ट्रस्ट, वासद के ट्रस्टी एवं अडमिनीस्ट्रेटर चंदुभाई काशीभाई पटेल
				12		निजी	गैर कृषि	410.00
								अरुणभाई मणीभाई पटेल
								गीरीशभाई मणीभाई पटेल
			Total Area (in Sq.mtr)					71898.00
			Total Area (in Hactares)					7.189

[फा. सं. एनएचआई/बीओटी-डीबीएफओ/रा.रा.-8/अहमदाबाद/2015]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2015

**S.O. 3509(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O 8(E), dated the 1st January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8 on the stretch of land from Km 68.200 to Km 93.300 (Ahmedabad - Vadodara Section) in District Anand in the State of Gujarat;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Divya Bhashkar” and “The Indian express”, both dated the 21st February, 2015, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the **Competent Authority** has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the Land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 68-200 to 93-300 Km. (Ahmedabad–Vadodara Section) on the National Highway No. 8 in the State of Gujarat

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Block/Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the Land Owners/ Interested Persons
				Block/ Survey Number before Sub-Division	Block/ Survey Number after Sub-Division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Anand	Anand	Boriavi	1326	1326/2/P	Private	Non Agricultural	23.00	Vishnubhai Maganbhai Patel
									Pravinbhai Maganbhai Patel
									Kusumben Maganbhai Patel
				1338	1338/1	Private	Agricultural	248.00	Kailashben Somabhai
									Rekhaben Somabhai
									Rajnikant Somabhai
									Shobhanaben Somabhai
				1355	1355/2	Private	Agricultural	350.00	Manojkumar Somabhai
									Jayantibhai Somabhai
									Savitaben Widow of Jashbhai Somabhai Patel
									Nilaben Jashbhai Patel
				1342	1342/1	Private	Agricultural	88.00	Harshadbhai Jashbhai Patel
									Ushaben Jashbhai Patel
									Maheshbhai Jashbhai Patel
									Gopalbhai Manibhai
				1340	1340/4	Private	Agricultural	65.00	Asmitaben Manibhai
									Minaxiben Manibhai
Pushpaben Manibhai									
1333	1333/2	Private	Agricultural	49.00	Kusumben Dahyabhai				
					Sureshbhai Dahyabhai				
					Rameshbhai Bhikhabhai				
1335					Private	Agricultural	472.00	Jayntibhai Somabhai	
								Shantaben widow of Chunibhai Ranchhodbhai	
								Manubhai Chunibhai	
								Vinubhai Chunibhai	
								Gurucharan Chunibhai	
								Kumudben Chunibhai	
								Rajnikaben Ravajibhai	
								Kanubhai Ravajibhai	
								Mukeshbhai Ravajibhai	
								Vinaben Ravajibhai	
								Smitaben Ravajibhai	
								Ushaben Motibhai	
								Shushilaben Motibhai	
Bhanuprasad Motibhai									
Anilbhai Motibhai									
Sureshbhai Motibhai									
Vimlaben widow of Ravajibhai Ranchhodbhai									

							Ramanbhai Ranchhodhbhai
							Savitaben Ranchhodhbhai
							Shardaben Ranchhodhbhai
							Kantaben Ranchhodhbhai
							Sarojben widow of Jashbhai Shivabhai
							Subhashbhai Jashbhai
							Subodhbhai Jashbhai
							Bebiben Jashbhai
							Kamala ben Shivabhai
							Vitthalbhai Shivabhai
							Vinubhai Shivabhai
			1336	1336/1	Private	Agricultural	Maganbhai Somabhai
							Vitthalbhai Somabhai
							Jashbhai Somabhai
							Vishnubhai Somabhai
							Virendrakumar Bhailalbhai Somabhai
							Rajnikaben Bhailalbhai Somabhai
							Madhuben widow of Dahyabhai Somabhai
							Akshayaben Dahyabhai Somabhai
							Pritiben Dahyabhai Somabhai
							Ravjibhai Khodabhai
							Bhartiben Daughter of Parsottambhai Khodabhai
							Minaxiben Daughter of Parsottambhai Khodabhai
							Mukundbhai Parsottambhai
							Hemantbhai Parsottambhai
							Yogeshbhai Parsottambhai
							Maniben Widow of Gordhanbhai Khodabhai
							Vipinchandra Gordhanbhai
							Ramaben Widow of Ishwarbhai Khodabhai
							Alkaben Daughter of Ishwarbhai Khodabhai
							Kashmiraben Daughter of Ishwarbhai Khodabhai
							Dipikaben Daughter of Ishwarbhai Khodabhai
							Tinaben Daughter of Ishwarbhai Khodabhai
							Bhavinkumar Ishwarbhai
			407	407/2/ 2A+2B	Private	Agricultural	Kiranbhai Maganbhai
							Harshadkumar Umeshbhai Patel
							Mukeshkumar Umeshbhai Patel
							Sureshbhai Vishnubhai Patel
							Vipulbhai Vishnubhai Patel
			407	407/4	Private	Agricultural	Patel Anilkbhai Maganbhai
							Patel Ashwinbhai Maganbhai
							Rekhaben widow of Ashokbhai Maganbhai Patel

						Ketan Ashokbhai Patel					
						Payalben Ashokbhai Patel					
			407/5	Private	Agricultural	424.00	Patel Rajeshbhai Alias Rajendrabhai Harmanbhai Patel Sanatbhai Harmanbhai Patel Dilipbhai Harmanbhai				
			407/3	Private	Agricultural	274.00	Kiranbhai Maganbhai Harshadkumar Umeshbhai Patel Mukeshkumar Umeshbhai Patel Sureshbhai Vishnubhai Patel Vipulbhai Vishnubhai Patel				
			406				406/4/2	Private	Agricultural	532.00	Dariyaben Chhaganbhai Parmar & Prabhatbhai Bhulabhai Chavda's wife
							406/7	Private	Agricultural	430.00	Patel Rajeshbhai Alias Rajendrabhai Harmanbhai Patel Sanatbhai Harmanbhai Patel Dilipbhai Harmanbhai
			404				404/1+ 2+3/1	Private	Agricultural	85.00	Sureshbhai Dhulabhai
			599					Private	Agricultural	289.00	Kamlaben widow of Dhayabhai Ambalal Shaileshkumar Dahyabhai Rajeshkumar Dahyabhai Gurucharan Dahyabhai
			591					Private	Agricultural	238.00	Parshotam Fulabhai Sarojben widow of Dahyabhai Fullabhai Ileshkumar Dahyabhai Fullabhai Patel Hiteshbhai Dahyabhai Fullabhai Patel Bharatkumar Dahyabhai Fullabhai Patel
			567				567/5	Private	Agricultural	230.00	Hemangini Kanubhai Minaben Kanubhai Vijaybhai Kanubhai Ajaybhai Kanubhai Manjulaben widow of Ravjibhai Shankarbhai Yagneshkumar Ravjibhai Hiralben Ravjibhai Alpeshkumar Ravjibhai Pradipbhai Parsottambhai Bin Shankarbhai Shantaben Shankarbhai Rajnikant Chandubhai Indiraben Chandubhai
			590				590/1	Private	Agricultural	45.00	Kalaben Daughter of Natubhai Marghabhai Patel Jigneshkumar Natubhai Vimalkumar Natubhai
							590/2	Private	Agricultural	345.00	Becharbhai Khodabhai
			600				600/2	Private	Agricultural	292.00	Manubhai Shankarbhai Brahmhatt
			412				412/2	Private	Agricultural	60.00	Lalitaben widow of Ambalal Harmanbhai

							Dineshbhai Ambalal Jankabhai Ambalal Pravinaben Ambalal Shantaben Widow of Mahijibhai Harmanbhai Vipinbhai Mahijibhai Rekhaben Mahijibhai Minaben Mahijibhai	
			602	602/2	Private	Agricultural	186.00	Becharbhai Khodabhai
				602/3	Private	Agricultural	480.00	Patel Jitendrakumar Bhailalbai Bin Harmanbhai
				602/4	Private	Agricultural	466.00	Becharbhai Khodabhai
			1337	1337/A	Private	Agricultural	216.00	Hasmukhbhai Desai Vinubhai Desai Sudhaben Rameshbhai Patel Chiragkumar Rameshbhai Patel Jigarkumar Rameshbhai Patel Kinnariben Rameshbhai Patel
		Lambhvel	253	253/1+2 P 1	Private	Agricultural	300.00	Patel Savitaben widow of Parshottambhai Shanabhai Patel Kanubhai Parshottambhai PateArvindbhai Parshottambhai Patel Vinubhai Parshottambhai Kokilaben widow of Chimanbhai Patel Manharbhai ChimanbhaiPatel RakeshbhaiChimanbhai Patel Rekhaben widow of Sureshbhai Patel Pinelben Sureshvhai Patel
			254	254/1 P 1	Private	Agricultural	250.00	Kanubhai Parshottambhai Kokilaben widow wife of Chimanbhai Patel Manharbhai Chimanbhai Patel Rakeshbhai Chimanbhai Patel
				254/2 P	Private	Non Agricultural	40.00	Pushpaben Ashwinbhai Makwana Dr.Ashwinbhai Mohanbhai Makwana
			256	256/P 1	Private	Agricultural	232.00	Pratulbhai Chhotabhai Patel
			255	255/1+2/ P 1	Private	Agricultural	95.00	Pratulbhai Chhotabhai Patel
			268	268/P 1	Private	Non Agricultural	219.00	Baljitsing Variyamsing Sindhu Sawrankaur Brikramjitsing Sindhu Amarjitsing Brikramjitsing Sindhu Haripritkaur Brikramjitsing Sindhu
			269	269/P 1	Private	Agricultural	383.00	Shardaben Danabhai Anandiben Danabhai Urmilaben Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi Dinaben Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi Ashrumati Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi Punitaben Philipbhai Alias

							Ramanbhai Danabhai Khristi
							Sanjay Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Anand Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Sandhyaben Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Sonalaben Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Savitaben Fransisbhai Parmar
							Samir Fransisbhai Parmar
							Alpeshbhai Fransisbhai Parmar
							Shitalben Fransisbhai Parmar
							Savitaben widow of Parshottambhai Bin Shanabhai
							Kanubhai Parshottambhai
							Arvindbhai Parshottambhai
							Vinubhai Parshottambhai
							Kokilaben widow of Chimanbhai Patel
							Manharbhai Chimanbhai Patel
							Rakeshbhai Chimanbhai Patel
							Rekhaben widow of Sureshbhai Patel
							Pinalben Sureshbhai Patel
							Irfanbhai Ayubhai Vora
							Arifbhai Ayubhai Vora
							Bhavesh Surendra sharma As a Director for Narmdacars Private Ltd
							Shardaben Danabhai
							Anandiben Danabhai
							Urmilaben Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Dinaben widow of Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Ashrumati Philipbhai Ramanbhai Danabhai Khristi
							Punitaben Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Sanjay Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Anand Philipbhai Ramanbhai Danabhai Khristi
							Sandhyaben Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Sonalben Philipbhai Alias Ramanbhai Danabhai Khristi
							Savitaben Fransisbhai Parmar
							Samir Fransisbhai Parmar
							Alpeshbhai Fransisbhai Parmar
							Shitalben Fransisbhai Parmar
							Dineshbhai Ambalal Patel
							Jagdishbhai Ambalal Patel



			Anand		2711/4	Private	Agricultural	81.00	Madhuben Daughter of Babarbai Veribhai
				2711	2711/1+2A+3	Private	Non Agricultural	319.00	(As per 7/12 of 2711/1+2A+3) Meghjiibhai Jivrajbhai Patel Devsinh Jivrajbhai Patel Gangdas Jivrajbhai Patel Khimjiibhai Jivrajbhai Patel
				2709	2709/2	Private	Agricultural	189.00	Jamuben Urfe Jamilaben wife of Abubhai Vohra & Daughter of Gulamnabi Jamalbhai vohra
					2709/1	Private	Agricultural	250.00	Manubhai Bhailalbhai Balvantbhai Bhailalbhai Arvindbhai Bhailalbhai Pravinbhai Bhailalbhai Bipendrabhai Bhailalbhai Smitaben widow of Vijaybhai Bhailalbhai Roshan Vijaybhai Patel
				2708	2708/3	Private	Agricultural	77.00	Khodabhai Mohanbhai Kokilaben Mohanbhai Shardaben Mohanbhai Shantaben widow of Somabhai Mohanbhai Rajeshbhai Somabhai Jitenbhai Somabhai Alpeshbhai Somabhai Punambhai Harmanbhai Mangalbhai Harmanbhai Gokalbhai Harmanbhai Raijibhai Harmanbhai Maganbhai Harmanbhai Jagdishbhai Harmanbhai Kashiben widow of ShankarbhaiMotibhai Chhotabhai Shankarbhai Rameshbhai Shankarbhai Natubhai Shankarbhai Kanubhai Shankarbhai Chandubhai Shankarbhai
					2708/1	Private	Agricultural	151.00	Kalpanaben widow of Maheshbhai Maganbhai Jimishaben Daughter of Maheshbhai Vrushaliben Daughter of Maheshbhai Jagdishbhai Maganbhai Patel Mahendrabhai Maganbhai Patel Dineshbhai Maganbhai Patel Sushilaben Widow of Prafullbhai Ambalal self &Guardian of Minor Birenkumar Prafullbhai Minor Mitalkumar Prafullbhai Minor Dixitkumar Prafullbhai Chandrakant Ambalal

						Ghanshyambhai Ambalal
						Jayntibhai Ambalal
						Chandrikaben Daughter of Ambalal Motibhai
						Snehaben Widow of Balkrushan Ambalal Self &
						Guardian of Minor Saulinkumar Balkrushn
	2693	2693/6	Private	Agricultural	151.00	Rabiyaben widow of Hajiganibhai
						Saedaben Hajiganibhai
						Bilkishben Hajiganibhai
						Yashinbhai Hajiganibhai
						Hajaraben Hajiganibhai
						Salmaben Hajiganibhai
						Arifbhai Hajiganibhai
		2619/2	Private	Agricultural	460.00	Blue Rock Hospitality Ventiz Privatet Limited
		2619/3	Private	Agricultural	386.00	Virsangbhai Somabhai Bhanabhai Somabhai
		2619/4	Private	Agricultural	215.00	Abdulwahab Allarakha Bin Rasoolbhai Vahora
		2619/5	Private	Agricultural	353.00	Anwarbeg Abdulbeg Mirza
	2619	2619/6	Private	Non Agricultural	470.00	Harmanbhai Ishwarbhai
						Pravinbhai Ishwarbhai
						Kokilaben Morlidhar Khatkar
						Ushaben Prahaladbhai Khatkar
						Premilaben Prakashbhai Khatkar
						Arunaben kishorbhai Khatkar
						Murlidhar Bhagvandas
						Prahladbhai Bhagvandas
						Prakashbhai Bhagvandas
						Arunaben Kishorbhai Mistri
						Premilaben Prakashbhai Mistri
						Vohara Yasinbhai Hajigulamnabi
						Vohara Imranbhai Hajigulamnabi
						Vohara Sabbirbhai Hajigulamnabi
		2619/7	Private	Agricultural	283.00	Harmanbhai Ishwarbhai Pravinbhai Ishwarbhai
		2619/8	Private	Agricultural	23.00	Harmanbhai Ishwarbhai Pravinbhai Ishwarbhai
	2618	2618/1+2+3	Private	Non Agricultural	392.00	Mosamali Gulammahnmmad Momin
	2594		Private	Non Agricultural	130.00	Lalabhai Bachubhai Ghanchi
						Lalabhai Bachubhai Ghanchi Guardian of Minor Samirbhai Lalabhai
						Baka Lalabhai Ghanchi
						Sohilkumar Lalabhai Ghanchi
					74.00	Salmaben Mohsinbhai
						Mohsinbhai Gulamnabi
	2603	2603/B	Private	Agricultural	100.00	S.T.Corporation
	2580	2580/B	Private	Agricultural	670.00	Haji Abdulhaq Ismailbhai Vohra
	2712	2712/1	Private	Agricultural	31.00	Rameshbhai Manibhai

			Samarkha	370	370/2P1	Private	Agricultural	131.00	Harshadbhai Veribhai Prajapati Nileshbhai Veribhai Prajapati Vinodbhai Veribhai Prajapati
				406	406 P1	Private	Agricultural	727.00	Harijan Laljibhai Shankarbhai Harijan Govindbhai Shankarbhai Harijan Laxmanbhai Shankarbhai
				407	407 P 1	Private	Agricultural	190.00	Asmitaben Arunkumar Chhotubhai's Widow Samirkumar Arunbhai Shetalkumar Guardian of Arunbhai Prinaben Arunbhai's Daughter Ritaben Widow of Rajnikant Chhotubhai Shefaliben Rajnikant Sonaliben Rajnikant Chiragkumar Rajnikant Asmitaben widow of Arunkumar
				408	408 P 1	Private	Agricultural	387.00	Mukundbhai Dahyabhai Patel
				410	410 P 1	Private	Non Agricultural	215.00	Nehaben Dipakbhai Shah Artiben Jagdishbhai Shah
					410 P 2	Private	Non Agricultural	200.00	Isubmiya Aminmiya Kureshi Aslamhusen Sikandarmiya Kureshi Mohmadhusen Sikandarmiya Kureshi Sirajmiya Aminmiya Kureshi
				411	411/1+2 +412/1	Private	Non Agricultural	420.00	Sadhuram Hariprasad Patel Sanjaybhai Sadhuram Patel Ajaybhai Sadhuram Patel Vijaybhai Sadhuram Patel
				405	405 P1	Private	Agricultural	84.00	Valand Babubhai Harmanbhai Valand Rameshbhai Harmanbhai Valand Manjulaben Harmanbhai Valand Mafatbhai Manibhai Valand Kantibhai Manibhai Valand Lalitaben Daughter of Manibhai
				412	412/1 P1	Private	Agricultural	478.00	Daxaben widow of Hasmukhbhai Vishalkumar Hasmukhbhai Patel
				371	371/3	Private	Non- Agricultural	246.00	Satishbhai Bhikhabhai & Pankajbhai Bhikhabhai Partner of Ravi Cold Storage
			Chikodra	170	170/2/ 1/P/2	Private	Agricultural	206.00	Parmar Somabbhai Banabbhai Rukhiben widow of Mangalbhai Banabbhai Kankuben Mangalbhai Vinubhai Mangalbhai Ramilaben Mangalbhai
				162	162 P 2	Private	Non Agricultural	223.00	(As per 7/12 of 162/Paiki 2)Laxmichand Maganbhai Patel Narsibhai Manabbhai Patel Kanbi( Patel) Rameshbhai Dalichand Rajeshbhai Ambarambhai Patel

								Jibaben Shankarbhai
								Dariyaben Shankarbhai
								Chandaben Shankarbhai
								Nandaben Shankarbhai
								Ishwarbhai Chaturbhai
								Budhabhai Chaturbhai
								Udesang Chaturbhai
								Ramabhai Chaturbhai
								Punambhai Chaturbhai
								Mohanbhai Chhotabhai Parmar
								Ranchodbhai Chhotabhai Parmar
								Rasikbhai Chhotabhai Parmar
								Kokilaben Chhotabhai Parmar
								Sudhaben Rajibhai Parmar
								Sangitaben Rajibhai Parmar
								Vijaykumar Rajibhai Parmar
			163	163/1	Private	Agricultural	154.00	
			213	213/1	Private	Agricultural	406.00	Dipakbhai Thakorabhai
			169	169/P1/ P1	Private	Non Agricultural	74.00	(As per 7/12 of 169/Paiki 1/Paiki 1) Shah Ritaben Satyendrakumar
			167	167/P 1	Private	Non Agricultural	180.00	(As per 7/12 of 167/Paiki 1) Mohanbhai Hundhrajmal Ambhani
								Pirsinh Magalsinh Rajpuohit
								Gardian of Minor Hindsinh Rajpuohit
								Avtarsinh Sarvantsingh Saaini
								Abdul Hanifkhan Abdulvahidkhan Pathan
			160		Private	Non Agricultural	504.00	Anand Regional Co-Operative Oil Seeds Grosers Union Limited Chikodra
		Vaghasi					84.00	Lakhubhai Valjibhai Patel
					Private	Agricultural	72.00	Natubhai Muljibhai Alias Mafatlal Panchal
			435	435/P			90.00	Shahinbanu Daughter of Anashbhai and Wife of Uveshbhai Sabbirbhai Vohara
					Private	Non Agricultural	95.00	Vidhyaben widow of Harshadbhai Chhotabhai
								Harishkumar Harshadbhai Patel
								Mineshkumar Harshadbhai Patel
			434	434/1 P	Private	Non Agricultural	40.00	Bharatbhai Ravjibhai Patel
								Chimanbhai Gordhanbhai
			448	448/1	Private	Agricultural	169.00	Vipinchandra Gordhanbhai Patel
				448/2+ 447/1/1	Private	Agricultural	125.00	Vipinchandra Gordhanbhai Patel
				447/1/2/P	Private	Non Agricultural	17.00	Jagdishbhai Ramjibhai Patel
								Navinbhai Ramjibhai Patel
			447	447/3/P	Private	Agricultural	234.00	Pravinbhai Narsinhbhai Patel
								Nishithbhai Kantibhai
								Kamalaben widow of Ambubhai Narshihbhai Patel
								Maheshbhai Ambubhai Patel
								Maynkkumar Ambubhai Patel
								Mayuri Ambubhai Patel

									Kusumben Alias Chanchalbem widow of Ravji				
									Jitendrakumar Ravjibhai				
									Upendrakumar Ravjibhai				
									Kanubhai Bijalbai Prajapati				
									Vikiben Darshan Patel				
									Kiritkumar Bhailalbai Shudhirbhai Bhailalbai Jayprakash Bhailalbai Kushumben wife of Kiritkumar Bhailalbai Patel Kiritkumar Bhailalbai Patel				
								449	449/1+2 +450/1	Private	Agricultural	198.00	Jitendra Manibhai
								443		Private	Non Agricultural	55.00	Ravjibhai Manibhai
												55.00	Gujarat Gram Gruh Nirman Board
								327	327/ 1+3+4	Private	Agricultural	1296.00	Patel Rameshbhai Chhotabhai Bin Vaghjibhai
								438	438/1	Private	Agricultural	515.00	Anand Regional Co-Operative Oil Seeds Grose Union Limited Chikodra
									438/2p	Private	Agricultural	368.00	Vipinchandra Gordhanbhai Patel Madhuben Widow of Ishwarbhai
								444	444 P	Private	Non Agricultural	50.00	Patel Sunilkumar Jayantilal
												50.00	Patel Sanjaykumar Virabhai
												50.00	Patel Prakashbhai Haribhai
												389.00	Kailashben Rasikbhai Chauhan
												389.00	Vipulbhai Rasikbhai Chauhan
												389.00	Arunkumar Rasikbhai Chauhan
												389.00	Rasikbhai Girdharbhai Chauhan
												60.00	Bhavnaben Kiranbhai Limbachiya
												60.00	Kiranbhai Ramanbhai Limbachiya
												60.00	Jayantibhai Jethabhai Patel
												60.00	Kusikbhai Jashbhai Patel
												60.00	Jitendrabhai Jashbhai Patel
												65.00	Diptiben Jayeshkumar Patel
												65.00	Girishbhai Ambalal Patel
								317	317/1/A	Private	Agricultural	120.00	Girishbhai Ratilal Patel
								318	318/1	Private	Non Agricultural	261.00	Manharbhai Iswarbhai Patel Gunvantbhai Jashbhai Patel
									318/2	Private	Agricultural	523.00	Manharbhai Iswarbhai Patel Gunvantbhai Jashbhai Patel
								404	404/1+ 404/2	Private	Non Agricultural	295.00	Salimudin Ajimudin Malek
												360.00	Mukharali Nazirali Pathan Faiyajali Nazirali
								405	405/1	Private	Agricultural	186.00	Patel Amrishkumar Jayntibhai Patel Naineshkumar Jayntibhai
									405/2			323.00	Kiranbhai Vinubhai Desai Pankajbhai Vinubhai Desai
								754		Private	Non Agriculture	97.00	Kantaben widow of Rameshbhai Shanabhai patel
								9		Private	Agricultural	115.00	Gangaben Widow of Bhulabhai Bhikhabhai Patel
												115.00	Manubhai Bhulabhai Patel

							Rajendrabhai Bhulabhai Patel
							Maniben alias Vimlaben Dahyabhai Patel
							Kusumben Vitthalbhai Patel
							Sureshbhai Ranchhodhbhai
							Pareshbhai Ranchhodhbhai
							Ushaben Ranchhodhbhai
							Daxaben Ranchhodhbhai
							Minaben Ranchhodhbhai
							Shambhubhai Ranchhodhbhai
							Champaben Ranchhodhbhai
							Damyantiben Ranchhodhbhai
							Chanchalben widow of Ramabhai Nanabhai
							Mahalaxmiben widow of Ranchhodhbhai Nanabhai
							Ratansinh Nanabhai
							Kapurben widow of Babubhai Jenabhai
							Kokilaben Babubhai
							Dineshbhai Babubhai
							Lilaben Babubhai
							Trikambhai Babubhai
							Kantibhai Babubhai
							Jayantibhai Babubhai
							Harshadbhai Babubhai
							Kantibhai Babubhai
							Ratansinh Nanabhai Chauhan
							Jayantibhai Babubhai
							Dineshbhai Babubhai
							Trikambhai Babubhai
							Harshadbhai Babubhai
							Kapurben widow of Babubhai Jenabhai
							Kokilaben Babubhai
							Lilaben Babubhai
							Ranchhodhbhai Nanabhai Chauhan
							Chanchalben widow of Ramabhai Nanabhai
							Govindbhai Dhulabhai Punambhai Dhulabhai
							Mehulkumar Rameshbhai Patel
							Punjiben Widow of Laxmanbhai Karsanbhai Chavda
							Sureshbhai Laxmanbhai Chavda
							Anitaben Laxmanbhai Chavda
							Hareshbhai Laxmanbhai Chavda
							Prakashbhai Laxmanbhai Chavda
							Adarben widow of Atmaram Chavda
							Surajben Atmaram Chavda
							Shankarbhai Atmaram Chavda
							Kanubhai Atmaram Chavda
							Maniben Dhulabhai

							Shantaben Dhulabhai
							Rajibhai Chhaganbhai
							Dariyaben Chhaganbhai
							Ramanbhai Punambhai
							Babubhai Punambhai
							Mohanbhai Punambhai
							Natvarbhai Punambhai
							Chanchalben Punambhai
							Jashiben Punambhai
							Vimlaben Punambhai
							Lilaben Punambhai
	24		Private	Agricultural	63.00		Naineshbhai Jayntibhai Patel Amrishkumar Jayntibhai Patel
	141	140+141 P1+ 142/1	Private	Non- Agricultural	110.00		Jayant Yashpal Nanda
	142	142/2	Private	Agricultural	64.00		Jayeshbhai Sureshbhai Patel Manishbhai Sureshbhai Patel Hareshbhai Kaushikbhai Patel Pareshbhai Jayntibhai Patel Jigneshbhai Dineshbhai Patel
	143		Private	Agricultural	38.00		Vishalkumar Rajnikant Manishkumar Rajnikant Jitendra Harmanbhai Pragneshkumar Vitthalbhai Patel Sunilkumar Chimanbhai Patel Pinalkumar Kantibhai Patel Vitthalbhai Gordhanbhai Patel Jayeshbhai Sureshbhai Patel Manishbhai Sureshbhai Patel Hareshbhai Kaushikbhai Patel Pareshbhai Jayntibhai Patel Jigneshbhai Dineshbhai Patel
	136	136/1	Private	Agricultural	153.00		Vishalkumar Rajnikant Manishkumar Rajnikant Jitendrakumar Harmanbhai
	400		Private	Agricultural	650.00		Kiranbhai Vinubhai Desai Pankajbhai Vinubhai Desai
	402	402/1+ 403/1	Private	Non Agricultural	129.00		Shah Sejalben Kaushikkumar Shah Kaushikkumar Sharadchandra
	401	401/1	Private	Non Agricultural	264.00		Gulamhusen Daudbhai Sunsara Kasambhai Ibrahimbhai Sunsara Aabidali Daudbhai Sunsara Jaiyanben Ibrahimbhai Sunsara Kasamali Ibrahimbhai Sunsara Nazarmahmmad Ibrahimbhai Sunsara
		401/2	Private	Agricultural	250.00		Kamlaben widow of Chhotabhai Dhoribhai
		401/2p	Private	Non Agricultural	36.00		Ashokbhai Somabhai Parmar Bhagvandas Lakhubhai Patel Harikumar Jivanbhai Patel
	385	385/1	Private	Non Agricultural	349.00		Dhanjibhai Nanjibhai

				385/2	Private	Non Agricultural	147.00	Uveshbhai Sabbirbhai Vahora
			386	386/B	Private	Non Agricultural	122.00	Uveshbhai Sabbirbhai Vahora
			389	389+390/1+2	Private	Non Agricultural	230.00	Hamidbhai Yusufbhai Vahora Rehanaben Hamidbhai Vahora
			390	389+390/1+2	Private	Non Agricultural	200.00	Zahir Ahmedkhan Gundukhan Pathan Zarinabagum widow of Abdulkadir Tahirakhanam Abdulkadir Tahirakhan Abdulkadir Zayadakhnam Abdulkadir Naziya Khanam Abdulkadir
			391		Private	Non Agricultural	760.00	Sharda Vijay Timber Mart Shamjibhai Pachanbhai Patel Partners from Chikhodara
			394		Private	Non Agricultural	658.00	<b>(As per 7/12 of 394 P)</b> Partners of Gala plastic Gala Brush Industries Partners Rameshchandra Lalji Gala Parshottambhai Naranbhai Patel Mansukhabhai Naranbhai Patel Parvtiben Naranbhai Patel Liladharbhai Naranbhai Patel Lilavatiben Te Morarjibhai Narsinhbhai Thakkar Ajaybhai Morarjibhai Thakkar Namta Sanket Gala Aditi Mayur Gala <b>(As per 7/12 of 394 Paiki 1)</b> Ashok Champaklal Shah
			377	377/1	Private	Non Agricultural	396.00	Nagjibhai Danabhai Ravjibhai Danabhai Bhanuben widow of Danabhai Karshanbhai Patel Muljibhai Danabhai Patel
				377/2	Private	Non Agricultural	90.00	Rasidaben Mahmadrifik Shekh
			378		Private	Agricultural	381.00	Anwarbeg Abdulbag Mirza
			598	598/P	Private	Agricultural	2023.00	Bhailalbhai Zvarbhai Sharadaben widow of Ranchhodbhai Naranbhai Ramanbhai Ranchhodbhai Kanubhai Ranchhodbhai Manjulaben Ranchhodbhai
			600		Private	Agricultural	677.00	Bhailalbhai Somabhai Rameshbhai Somabhai
			582		Private	Agricultural	580.00	<b>(As per 7/12 of 582/1)</b> Sharadaben widow of Ranchhodbhai Naranbhai Kanubhai Ranchhodbhai Manjulaben Ranchhodbhai Sureshbhai Ramanbhai Jayaben Ramanbhai Kamleshbhai Ramanbhai <b>(As per 7/12 of 582/2)</b>





								Ravindrabhai Parshottambhai Patel
								Maheshbhai Parshottambhai Patel
								Ravindrabhai Parshottambhai Patel
								Kalaben Parshottambhai Patel
								Maheshbhai Parshottambhai Patel
								Dinaben Parshottambhai Patel
			Mogar					Dahiben widow of Fulabhai Solanki
								Ramanbhai Fulabhai Solanki
								Chimanbhai Fulabhai Solanki
								Vijaybhai Fulabhai Solanki
								Ramanbhai Pujabhai Patel
								Himanshu Alias Hiteshbhai Motibhai
								Bhupendrabhai Motibhai
								Harisinh Ramsinh Vaghela
								Balvantsinh Ramsinh Vaghela
								Mahendrasinh Ramsinh Vaghela
								Ranvir Ramsinh Vaghela
								Sajanben Ramsinh
								Hemrajsinh Karansinh Solanki
								Maheshbhai Motibhai
								Rajeshriben Manibhai
								Simaben Manibhai
								Dillikaben Manibhai
								Ajay Manibhai
								Sejalben Manibhai
								Husenbhai Aalambhai
								Harisinh Fatesinh
								Udesinh Fatesinh
								Dhanaben widow of Sujatbhai Salambhai Chauhan
								Saduben Widow of Fatesinh
								Nizambhai Sujatbhai Chauhan
								Mumtazben widow of Mahmmadbhai Sujatbhai Chauhan
								Manishaben Mahmmadbhai Chauhan
								Shanuben Mahmmadbhai Chauhan
								Hamidbhai Mahmmadbhai Chauhan
								Reshmaben Mahmmadbhai Chauhan
								Samirbhai Mahmmadbhai Chauhan
								Bachubhai Jivabhai Chauhan
								Baluben Jivabhai Chauhan
								Chhatrasinh Jivabhai Chauhan
								Mansing Jivabhai Chauhan
								Kantibhai Naranbhai Prajapati
								Chatrasinh Mansinh Mahida
								Dhaniben Mansinh Mahida
								Harisinh Mansinh Mahida

								Chanduben Mansinh Mahida
								Udesingh Mansinh Mahida
						Agricultural	510.00	Patel Ramanbhai Parshottambhai
								kiritbhai Ramanbhai Patel
								Hansaben Ramanbhai Patel
								Rekhaben Ramanbhai Patel
								Narendabhai Ramanbhai Patel
								Chandrakant Ramanbhai Patel
								Rameshbhai Chhotabhai Patel
								Anandben Ranjitsinh Vaghela
								Ritaben Ranjitsinh Vaghela
								Dilipsinh Ranjitsinh Vaghela
								Dipaksinh Ranjitsinh Vaghela
752	752/P	Private	Agricultural & Non Agricultural	750.00	Prajapati Tarulataben Kantibhai Prajapati Kantibhai Naranbhai Ranjitsinh Madhavsinh Mahida			
					Laxmansinh Madhavsinh Mahida			
					Jitendsinh Madhavsinh Mahida			
751		Private	Non Agricultural	552.00	Dhanjibhai Danabhai			
749		Private	Non Agricultural	397.00	Narsinhbhai Danabhai			
38		Private	Agricultural	380.00	Gujarat Energy Transmision Corporation Limited			
750		Private	Agricultural	165.00	Chairman of Kheda District Shala Mandal			
754		Private	Agricultural	393.00	Chairman of Kheda District Shala Mandal			
37	37/2	Private	Non Agricultural	300.00	Chhatrasinh Somsinh Chhastiya			
				402.00	Vikaramsinh Chhatrasinh Chhastiya			
				100.00	Jitendrasinh Madhavsinh			
	37/1	Private	Non Agricultural	480.00	Kanaksinh Madhavsinh Vaghela			
				369.00	Chhatrasinh Somsinh Vandnaben Narharibhai Chhotabhai Patel			
3	3P	Private	Agricultural	83.00	Solanki Ranvirisinh Sursinh			
					Jitendrasinh Sursinh			
					Maheshkumar Sursinh			
					Sakuntalaben widow of Virbhadrasingh Sursinh			
					Divyarajsinh Virbhadrasingh Solnki			
					Daveyaniben Virbhadrasingh Solnki			
					Maheshvriben Virbhadrasingh Solnki			
11	11/1	Private	Agricultural	10.00	Solanki Jitendrasinh Sursinh			
					Ranvirisinh Sursinh			
					Maheshkumar Sursinh			
					Sakuntalaben widow of Virbhadrasingh Sursinh Solnki			
					Divyarajsinh Virbhadrasingh Solnki			

							Devyaniben Virbhadasinh Solanki
							Maheshvriben Virbhadasinh Solanki
			11/2	Private		210.00	Maheshkumar Sursinh Solanki
						370.00	Sakuntlaben widow of Virbhadasinh Sursinh Solanki Divyarajsinh Virbhadasinh Solanki Devyaniben Virbhadasinh Solanki Maheshvriben Virbhadasinh Solanki
		10		Private	Agricultural	66.00	Solanki Ranvirisinh Sursinh Jitendrasinh Sursinh Meheshkumar Sursinh Sakuntlaben widow of Virbhadasinh Sursinh Solanki Divyarajsinh Virbhadasinh Solanki Devyaniben Virbhadasinh Solanki Maheshvriben Virbhadasinh Solanki
		24	24/1/B	Private	Non-Agricultural	45.00	Kanchi Kamkoti Medical Trust
			24/1/A		Agricultural	45.00	Ratansi Hansraj Patel
		67	67/11 P 1 P	Private	Agricultural	816.00	Shakuntalaben Daughter of Natvarsinh Shivabhai Parmar & wife of Bahadursinh Shanabhai Mahida
	Vadod	697		Private	Agricultural	70.00	Naynaben Pradipbhai Patel Prdipbhai Rambhai Patel Tejash Manibhai Patel Pravinbhai Dahyabhai Patel Dhanuben Alias Dhanlaxmiben Daughter Of Kantibhai Shivabhai Patel & wife of Vinubhai Ravjibhai Patel
		676		Private	Agricultural	300.00	Shankarbhai Mangalbhai Mahida Gordhanbhai Mangalbhai Natubhai Mangalbhai Shivabhai Fullabhai Rambhai Jivabhai Chandubhai Jivabhai Savitaben Fullabhai Dahyabhai Lallubhai Gajaraben widow of Motibhai Bhathibhai Kamlaben widow of Dahyabhai Bhathibhai Madhuben Dahyabhai Manubhai Dahyabhai Rameshbhai Dahyabhai Shanabhai Bhathibhai Mahendrasinh Khodabhai Arvindbhai Khodabhai Revaben widow of Udesngh

								Ramilaben Udesingh
								Ranjanben Udesingh
								Nainaben widow of Mahendrasinh
								Payalben Mahendrasinh
								Digvijaysinh Mahendrasinh
								Vaisaliben widow of Jitendrasinh
								Jaydepsinh Jitendrasinh
								Dimpalben Jitendrasinh
								Shantaben Kashibhai Jariya
								Kanubhai Kashibhai Jariya
								Savitaben Kashibhai Jariya
								Arjunbhai Kashibhai Jariya
								Surajben Kashibhai Jariya
								Kantaben Bhikhabhai Jariya
								Dilipbhai Bhikhabhai Jariya
								Hansaben Bhikhabhai Jariya
								Vishnubhai Bhikhabhai Jariya
								Sonaben widow of Mansingh Jariya
								Kanubhai Ambalal Jariya
								Bhagvansinh Ambalal Jariya
								Bajuben widow of Ravjibhai Jariya
								Bhanuben Ravjibhai Jariya
								Laxmiben Ravjibhai Jariya
								Shardaben widow of Bhailalabhai Jariya
								Minaben Bhailalabhai Jariya
								Nitaben Bhailalabhai Jariya
								Bhupendrabhai Bhailalabhai Jariya
								Shantaben widow of Ramanbhai Mangalbhai Jariya
								Jashbhai Ramanbhai Jariya
								Jugiben Chandubhai Jariya
								Mukeshbhai Chandubhai Jariya
								Bajuben widow wife of Ravjibhai Prabhatbhai
								Daxaben Ravjibhai Jariya
								Laxmiben Ravjibhai Jariya
								Shardaben Laxmanbhai Jariya
								Jyotsnaben Laxmanbhai Jariya
								Ritaben Laxmanbhai Jariya
								Divaliben widow of Babubhai Jariya
								Dilipbhai Babubhai Jariya
								Gangaben widow wife of Amarsinh Motibhai Jariya
								Maheshbhai Amarsinh Motibhai Jariya
								Ajitkumar Amarsinh Jariya
			675		Private	Agricultural	68.00	Gajraben widow of Motibhai Bhatibhai

							Kamlaben widow of Melabhai Motibhai
							Mahendrabhai Motibhai
							Arvindbhai Motibhai
							Gordhanbhai Mangalbai
							Ramanbhai Mangalbai
							Natubhai Mangalbai
							Gangaben Amarsinh Jariya
							Ranjanben Amarsinh Jariya
							Mahesbhai Amarsinh Jariya
							Ajitkumar Amarsinh Jariya
	Adas	1062	1062/8P1	Private	Agricultural	167.00	Bachubhai Udesing
		870	870/7/P1	Private	Agricultural	260.00	Davedattsinh Vikramsinh Raj
							Kailasben Vikramsinh Raj
			870/8	Private	Agricultural	35.00	Balvirsinh Vikramsinh Raj
		871	871/14/ 16/4	Private	Agricultural	546.00	Jankbhai Bhailalbai Patel
							Ramsingh Mansingh
							Kishorsinh Mansingh
							Kanaksinh Mansingh
							Hiraben Daughter of Mansing Kabhaiabhai
							Shantaben Daughter of Mansing Kabhaiabhai
							Rajendrasinh Narendrasinh Mahida
		Bhavnaben Narendrasinh Mahida					
			Ranjanben Narendrasinh Mahida				
		883	883/P 1	Private	Agricultural	68.00	Shardaben Daughter of Motibhai Chimebhai
							Ganpatsinh Motisinh
		859	859/P 1	Private	Agricultural	91.00	Bhavinbhai Maheshbhai Patel
		858	858/P 1	Private	Non Agricultural	64.00	Amidhara Realtors Private Limited by Its Director/ Authorized Person : Hitendra R.Shah
	Vasad	11	11/2	Private	Non Agricultural	410.00	Arunbhai Manibhai Patel
							Girishbhai Manibhai Patel
							Gitaben Daughter of Manibhai Patel
		159	159/P	Private	Agricultural	35.00	Jayaben widow of Jaytibhai Harmanbhai Patel
							Vasantikaben Jaytibhai Patel
							Ojeshbhai Jaytibhai Patel
							Nimeshbhai Jaytibhai Patel
		968		Private	Agricultural	899.00	Rashmikant Ambalal
		967		Private	Agricultural	2327.00	Simndhar Swami Aradhana Trust Ahmedabad
		962		Private	Agricultural	6630.00	Gangaben widow of Haribhai Dhulabhai
							Kesrisang mahijibhai Parmar
							Udesang Mahijibhai
							Savitaben Daughter of Shanabhai & Guardian of Minor Kamlaben,
							Vimalaben Guardian of Minor

								Kantaben & Kamlaben Amersang	
								Nanduben widow of Fatesang Himatsang Parmar	
								Manjulaben Fatesang Parmar	
								Ashokbhai Fatesang Parmar	
								Rajeshbhai Fatesang Parmar	
								Vishnubhai Fatesang Parmar	
								Shardaben widow of Ganpatsinh Alias Ganpatbhai Parmar	
								Sunitaben Ganpatsinh Alias Ganpatbhai Parmar	
								Kalpeshbhai Ganpatsinh Alias Ganpatbhai Parmar	
								Hashmukhbhai Ganpatsinh Alias Ganpatbhai Parmar	
				907		Private	Agricultural	2379.00	Mrushad Shantubhai Patel
				908		Private	Agricultural	1826.00	(As Per 7/12 of 908/1)
					Kalaben Umedbhai Patel				
					Bhupendrabhai Umedbhai Patel				
					Ashwinbhai Umedbhai Patel				
					Ranjanben Umedbhai Patel				
					Pragnaben Umedbhai Patel				
									Shardaben widow of Umedbhai Somabhai Patel
									(As Per 7/12 of 908/2)
									Bhailalbhai Trikbhai
									Ranchodbhai Tribhovandash
									Dahyabhai Tribhovandash
									Shardaben Widow of Chunibhai
									Chotabhai Patel
									Kanubhai Chunibhai Patel
									Pushpaben Chunibhai Patel
				965		Private	Agricultural	440.00	Bhailalbhai Trikbhai Patel
					Ranchodbhai Trikbhai				
					Dahyabhai Trikbhai Patel				
				909		Private	Agricultural	1630.00	Dilipkumar Mangalbhai
					Virandrakumar Mangalbhai				
					Kamalaben Wife of Ranchodbhai Mithabhai Patel				
					Mayabenn Daughter of Ranchodbhai Mithabhai Patel				
					Jayeshbhai Ranchodbhai Mithabhai Patel				
				910		Private	Agricultural	1800.00	Rameshbhai Muljibhai Patel
					Harshdbhai Muljibhai Patel				
				913	912+ 913	Private	Agricultural	660.00	Chandubhai kashibhai Patel As Trusty & Administrator of Shri Vasad Gam Leua Patidar Kuldevi Vaherai Mataji Seva trust, Vasad
				951	951/P 1	Private	Agriculture	260.00	Manubhai Mahijibhai
									Ramanbhai Mahijibhai
									Thakorabhai Mahijibhai
									Ghanshayambhai Mahijibhai
									Arpitaben Mahijibhai
									Naginbhai Bhikhabhai

									Shashikant Bhikhabhai
									Hiteshbhai Bhikhabhai
									Lalitaben Maganbhai Patel
									Savitriben Maganbhai Patel
									Gaytriben Maganbhai Patel
									Chandramaniben Maganbhai Patel
									Nilamben Maganbhai Patel
									Suchitaben Maganbhai Patel
				957	957/P 1	Private	Agricultural	280.00	Lalitaben Widow of Ambalal Patel
									Kanubhai Ambalal Patel
									Maheshbhai Ambalal Patel
				914		Private	Agricultural	720.00	Sant shri Avichaldasji Kayampanthi ,Trusty of Shri Karunasagar Samaj Seva Trust, Vasad
				928	928/1	Private	Agricultural	60.00	Shri Chimanbhai Babarbhahi patel Trusty as per Shri Avichaldasji Shri Karunasagar Samaj Seva Trust
						Private	Agricultural	10.00	Chandubhai kashibhai Patel as a Trusty & Administrator of ShriVasad Gam Leua Patidar Kuldevi Vaherai Mataji Seva trust
				12		Private	Non Agricultural	410.00	Arunbhai Manibhai Patel
									Girishbhai Manibhai Patel
			Total Area (in Sq.mtr)					71898.00	
			Total Area (in Hactares)					7.189	

[F. No. NHA/BOT-DBFO/NH-8/Ahmadabad/2015]

V. KRISHNASWAMY, Director